



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)

PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 27, 2006/माघ 7, 1927

No. 5]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 27, 2006/MAGHA 7, 1927

भारत परिसीमन आयोग

आदेश सं. 17

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2006

आ.अ. 5(अ).—परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 4 के साथ पठित धारा 8 के अनुसरण में तथा इस संबंध में इसे सक्षम बनाने वाले अन्य सभी सांविधिक और कानूनी उपबन्धों को ध्यान में रखते हुए, परिसीमन आयोग, एतद्वारा यह नियत करता है :—

- (क) लोक सभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को आबंटित किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सात (7) होगी ;
- (ख) लोक सभा में राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को इस प्रकार आबंटित कुल सात (7) संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या क्रमशः एक (1) और शून्य (0) होगी ;
- (ग) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को नियत किए जाने वाले स्थानों की कुल संख्या सत्तर (70) होगी ; और
- (घ) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा को इस प्रकार नियत सत्तर (70) स्थानों की कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या क्रमशः बारह (12) और शून्य (0) होगी ।

[फा. सं. 282/दिल्ली/2006]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2006

परिसीमन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 9 की उप-धारा (2) के अनुसरण में, परिसीमन आयोग राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए एतद्वारा अपने प्रस्ताव प्रकाशित करता है तथा 10 फरवरी, 2006 (शुक्रवार) को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करता है जिसको अथवा जिसके पश्चात् वह उक्त प्रस्तावों पर आगे विचार करेगा ।

2. इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में कोई आक्षेप या सुझाव सचिव, पटिस्मिन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास उक्त तारीख तक या उसके पूर्व पहुँच जाने चाहिए।

### प्रस्ताव

- (i) वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जिनमें राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली को (क) राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा तथा (ख) लोक सभा निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ विभक्त किया जाएगा तथा अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित ऐसे प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र और निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार क्रमशः सारणी (क) और (ख) में दर्शाए अनुसार होगा ; और
- (ii) जहाँ सारणी (क) और (ख) में यथादर्शित किसी निर्वाचन क्षेत्र का नाम कोष्ठकों और (अ.जा) शब्दों द्वारा सुभिन्न किया गया है वहाँ उस निर्वाचन क्षेत्र का स्थान अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है।

### सारणी – क

#### विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा उनका प्रस्तावित विस्तार

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या तथा नाम	विस्तार
1. नरेला	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 101 वार्ड सं० 101 (शहरी) तथा बांकनेर (सीटी), घोगा (सीटी), सनोठ (सीटी), लामपुर, मामूरपुर, सिंघोला, टिकरी खुर्द, कुरेनी तथा भोर गढ़ ग्राम। दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 102 खेड़ा खुर्द (सीटी), अलीपुर (सीटी), सिंघू, हमीदपुर, ताजपुर कलां, अकबरपुर माजरा, पल्ला, कुल्लाकपुर, झंगोला, सुंगेरपुर शाहदरा, सुंगेरपुर दिल्ली, तिगीपुर, फतेहपुर जाट, बख्तावरपुर, बंकौली, खामपुर, शाहपुरगढ़ी, राजपुर कलां, इरादत नगर उर्फ नया बांस, होलम्बी खुर्द, होलम्बी कलां, जिन्दपुर, हिरांकी, मोहम्मदपुर रमजानपुर, टेहरी दौलतपुर, बोधपुर बीजापुर तथा खेड़ा कलां ग्राम।
2. बुराड़ी	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 104 (भाग) बुराड़ी (सीटी), झाड़ौदा माजरा बुराड़ी (सीटी), भल्सवा जहागीर पुर (सीटी), इब्राहिमपुर, गढ़ी खसरू, मुखमेलपुर, कादीपुर, नांगलीपोना, संजरपुर, सलेमपुर माजरा बुराड़ी, बदरपुर माजरा बुराड़ी, जगतपुर इलाका शाहदरा, जगतपुर इलाका दिल्ली, कमालपुर माजरा बुराड़ी तथा मुकंदरपुर ग्राम
3. तिमारपुर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 115

3. तिम्मार पुर	वार्ड सं० 115 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 116 वार्ड सं० 116 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 121 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-36 तथा 73-110
4. आदर्श नगर	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 105 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-113 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 106 वार्ड सं० 106 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 118 (भाग) गणना ब्लाक सं० 92 - 118
5. बादली	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 34 (भाग) गणना ब्लाक सं० 66-133, 170-181, लिबासपुर (सीटी) तथा
	सिरस पुर (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 103 भल्सवा जहांगीरपुर (सीटी)
6. रिठाला	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 33 (भाग) गणना ब्लाक सं० 131-220, 315-358, 412-417, 419, 421, 424, 425, 427-431 तथा 437-438 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 35 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-92 तथा 224-320
7. बवाना (अ.जा.)	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 34 (भाग) कांकर खेड़ा ग्राम दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 36 साहिबाबाद दौलतपुर (सीटी), प्रहलाद पुर बंगर (सीटी), बेगमपुर (सीटी), पूठ कलां (सीटी), पंसाली और बरवाला ग्राम दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 37 बवाना (सीटी), नांगल ठाकरान (सीटी), पूठ खुर्द (सीटी), दरयापुर कलां, हरेओली, ओचंदी, मुन्नेशपुर, कटेवड़ा, बाजिद पुर ठाकरान, सुल्तान पुर डबास, कूतब गढ़, पंजाब खोड, जट खोड, सालाह पुर माजरा, बुधान पुर और चान्द पुर ग्राम ।
8. मुन्दका	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 38 (भाग) कंझावला (सीटी), कराला, मोहम्मद पुर माजरी, मदनपुर डबास, लाडपुर, चटेसर, जोन्ती, गढ़ी रिठाला और निजाम पुर रशिद पुर ग्राम । दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 43

९. मुन्डका	नांगलोई जाट (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-39 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 44 मुन्डका (सीटी) नांगलोई जाट (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-32 और 35 कमरुद्दीन नगर (सीटी) भाग गणना ब्लाक सं० 1-3 और 14-15, धेवरा (सीटी), रानी खेड़ा, रसूलपुर, सावदा और निलोटी गांव दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 48 (भाग) जाफरपुर उर्फ हिरन कुदना, बक्कर वाला, तिलंगपुर कोटला, शाफी पुर और रनहोला गांव दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 50 (भाग) टीकरी कलां और नीलवाल ग्राम
१०. किराडी	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 38 (भाग) किराडी सुलेमान नगर (सीटी), निठारी तथा मुबारक पुर डबास ग्राम
10. सुल्तानपुर माजरा (अ.जा)	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 39 (भाग) सुल्तान पुर माजरा (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 40 सुल्तान पुर माजरा (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 41 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-60
11. नांगलोई जाट	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 39 (भाग) वार्ड सं० - 39 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 43 वार्ड सं० - 43 (शहरी) नांगलोई जाट (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 40-186 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 44 (भाग) नांगलोई जाट (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 33-34 कमरुद्दीन नगर (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 4-13 और 33-34
12. मंगोल पुरी (अ.जा)	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 35 (भाग) गणना ब्लाक सं० 93-223

12. इन्दौरपुरी (न. ७०)	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 41 (भाग) गणना ब्लाक सं० 61-153 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 42 वार्ड सं० 42 (शहरी)
13. रोहिणी	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 33 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-130, 221-314, 359-411, 418, 420, 422, 423, 426, 432-436 और 439-446 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 34 (भाग) गणना ब्लाक सं० 134-169
14. शालीमार बाग	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 31 वार्ड सं० - 31 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 32 वार्ड सं० - 32 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 34 (शहरी) गणना ब्लाक सं० 1-65
15. शकूर बस्ती	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 26 वार्ड सं० - 26 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 30 वार्ड सं० - 30 (शहरी)
16. त्रिनगर	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 27 वार्ड सं० - 27 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 28 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-53 और 107-121 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 29 वार्ड सं० - 29 (शहरी)
17. वजीर पुर	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 28 (भाग) गणना ब्लाक सं० 54-106 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 99 वार्ड सं० - 99 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 100 वार्ड सं० - 100 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 105 (भाग) गणना ब्लाक सं० 114-190
18. माडल टाउन	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 117 वार्ड सं० - 117 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 118 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-91 और विशेष गणना ब्लाक सं० 701-704 और 801-803

23867/06-2

	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 119 वार्ड सं० – 119 (शहरी)
19. सदर बाजार	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 120 वार्ड सं० – 120 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 121 (भाग) गणना ब्लाक सं० 37-72 और 111-115 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 122 वार्ड सं० – 122 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 133 वार्ड सं० – 133 (शहरी)
20. चॉदनी चौक	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 2 (भाग) गणना ब्लाक सं० 121-144 और 146-157 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 110 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-83 और 501-504
	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 113 वार्ड सं० – 113 (भाग) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 114 वार्ड सं० – 114 (शहरी)
21. मटिया महल	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 1 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-50 और 73-82 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 2 (भाग) गणना ब्लाक सं० 77-120 और 145 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 107 भाग गणना ब्लाक सं० 1-62 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 108 (भाग) गणना ब्लाक सं० 85-105 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 109 वार्ड सं० – 109 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 110 (भाग) गणना ब्लाक सं० 84-147
22. बल्लीमारन	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 107 (भाग) गणना ब्लाक सं० 63-95 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 112 वार्ड सं० – 112 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० – 111 वार्ड सं० – 111 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 131 वार्ड सं० – 131 (शहरी)

23. करोल बाग (अ.जा.)	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 108 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-84 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 129 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-19, 45-79 और 82-88 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 130 वार्ड सं० – 130 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 132 वार्ड सं० – 132 (शहरी)
24. पटेल नगर (अ.जा.)	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 125 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-83 और 100-126 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 126 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-46 और 104-136 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 134 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-127 और 150 – 167
25. मोती नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 123 वार्ड सं० – 123 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 124 वार्ड सं० – 124 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 125 (भाग) गणना ब्लाक सं० 84-99 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 23 (भाग) गणना ब्लाक सं० 86-110 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 134 (भाग) गणना ब्लाक सं० 128-149 और 168 – 180
26. मादी पुर (अ.जा.)	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 23 (भाग) गणना ब्लाक सं० 49-85 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 24 वार्ड सं० – 24 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 25 वार्ड सं० – 25 (शहरी)
27. राजौरी गार्डन	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 21 वार्ड सं० – 21 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 22 (भाग) गणना ब्लाक सं० 81 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 23 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-48 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 45 वार्ड सं० – 45 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 46 (भाग) गणना ब्लाक 1-23

28. हरि नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 18 (भाग) वार्ड सं० – 1-43 और 93-142, दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 19 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-110 और 165-167, दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 20 वार्ड सं० – 20 (शहरी)
29. तिलक नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 22 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-80, 82-148 और विशेष गणना ब्लाक सं० 2901 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 46 (भाग) गणना ब्लाक सं० 24-182
30. जनक पुरी	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 17 वार्ड सं० – 17 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 18 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 44-92 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 19 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 111-164, दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 51 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1-76
31. विकास पुरी	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 47 वार्ड सं० – 47 (शहरी) और हस्तसाल (सीटी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 48 (भाग) बापडौला और राजा पुर खुर्द गांव
32. उत्तम नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 48 (भाग) वार्ड सं० – 48 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 54 (भाग) गणना ब्लाक सं० 96-97
33. द्वारका	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० – 51 (भाग) गणना ब्लाक सं० 77-174 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० – 52 (भाग) गणना ब्लाक सं० 61-75 और 91-257
34. मटिआला	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 49 (भाग) दिन्दार पुर, खड़खड़ी नहर, खड़खड़ी जटमल, खेड़ा डाबर और नंगली सकरावती गांव दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 53 (भाग) गणना ब्लाक सं० 11-86 और 132-217 पपरावट, गोयला खुर्द, कुतुब पुर, ताजपुर खुर्द, रेवला खाम पुर, पंडवाला कलां, दरियापुर खुर्द, शेरपुर डेरी, खड़खड़ी रोन्ड, दौलतपुर, पंडवाला खुर्द, घूमन हेडा, झुलझुली, सारंगपुर, गालिब पुर, रावता और दौराला गांव



	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 54 (भाग) गणना ब्लाक सं० 225–229 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 55 (भाग) छावला (सीटी), हसनपुर, कांगन हेडी, राघुपुर, बडूसरा, नानक हेडी, झटीकरा, असालतपुर खावद, शिकारपुर और जैनपुर गांव
35. नजफगढ़	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 49 (भाग) वार्ड सं० – 49 (शहरी), रोशन पुरा उर्फ दिचाऊ खुर्द (सीटी) और खैरा गांव दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 50 (भाग) झाडौदा कलां, दिचाऊ कलां, मितराऊँ, सुरखपुर, कैर, मुन्हेला खुर्द, मुन्हेला कलां, जाफरपुर, सुरेडा, ऊजवा, समसपुर खालसा, बाकरगढ़, ईसापुर, काजीपुर, मलिकपुर जेर – नजफगढ़ और ढांसा गांव
36. बिजवासन	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 54 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1–76 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 55 (भाग) वार्ड सं० – 55 (शहरी), सम्भालका (सीटी) कापसहेड़ा (सीटी) और सालहपुर गांव दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 56 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1–60, 64–67 और विशेष गणना ब्लाक सं० – 2101–2102, 3601–3603 और नांगल देवत (सीटी)
37. पालम	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 52 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1–60 और 76–90 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 53 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1–10 और 87–131 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 54 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 77–95, 98–224, 230–237 और विशेष गणना ब्लाक सं० 1101–1102, 1501–1510 और 2701
38. दिल्ली छावनी	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 1 से वार्ड सं० 7 नई दिल्ली नगरपालिका 8 (भाग) गणना ब्लाक सं० 11–12 और 14–30 नई दिल्ली नगरपालिका – वार्ड सं० 9 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 18–140, 301, 302 और 1201–1208
39. राजिन्द्र नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 126 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 47–103 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 127 वार्ड सं० – 127 (शहरी)

22/1/26

	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 128 वार्ड सं० – 128 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 129 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 20-44 और 80-81
40. नई दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका – चार्ज सं० – 1 से चार्ज सं० – 7 नई दिल्ली नगरपालिका – चार्ज सं० 8 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-10, 13 और 31-42 नई दिल्ली नगरपालिका – चार्ज सं० – 9 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-17
41. जंगपुरा	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 1 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 51-72 और 83-101 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 2 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1-76, 158-159 तथा 3401-3403 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 6 वार्ड सं० – 6 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 5 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1-48 तथा 61-90
42. कस्तूरबा नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 3 वार्ड सं० – 3 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 4 वार्ड सं० – 4 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 5 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 49-60 तथा 91-113 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 8 (भाग) वार्ड सं० – 1-5, 62-67, तथा 122-139
43. हौज खास	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 11 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1-95 तथा 150 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 13 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 17-106 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 14 वार्ड सं० – 14 (शहरी)
44. आर.के. पुरम	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 13 (भाग) गणना ब्लाक सं० – 1-16 तथा 107-117 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 15 वार्ड सं० – 15 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 16 (भाग) वार्ड सं० – 16 (शहरी) तथा मुरादाबाद पहाड़ी ग्राम
45. महरौली	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 55 (भाग) रजोकरी (सीटी)

	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 56 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 61-63 तथा 68-129  मलिक पुर कोही उर्फ रंगपुरी तथा कुसुमपुर ग्राम  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० – 57  वार्ड सं० – 57 (शहरी)  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 59 (भाग)  गणना ब्लाक सं० – 1-4 तथा 71-93</p>
46. छतरपुर	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 58  सुल्तानपुर (सीटी), असोला (सीटी), भाटी (सीटी), जोनपुर (सीटी),  गदर्ईपुर, आया नगर, मन्डी, राजपुर खुर्द, सतबेरी, शहुरपुर, चन्दन होला,  फतहपु, बेरी, डेरा, छतरपुर, तथा मैदान गढ़ी ग्राम ।  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 57 (भाग)  सैदुल अजायब (सीटी) तथा नेब सराय ग्राम  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 56 (भाग)  घिठोरनी (सीटी)  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 60 (भाग)  देवली (सीटी) (भाग)  गणना ब्लाक सं० 136-171</p>
47. देवली (अ.जा)	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 60 (भाग)  देवली (सीटी) (भाग)  गणना ब्लाक सं० 1-135 तथा टिगड़ी (सीटी)  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 62 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 1-68  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 64 (क)  गणना ब्लाक सं० – 64 (क) (शहरी)</p>
48. अम्बेडकर नगर (अ.जा)	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 59 (ख) (भाग)  गणना ब्लाक सं० 5-70 तथा 94-140  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 61  वार्ड सं० – 61 (शहरी)  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 62 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 69-133</p>
49. संगम विहार	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 64 (ख) (भाग)  वार्ड सं० – 64 (ख) (शहरी)  दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 63 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 9-46</p>
50. ग्रेटर कैलाश	<p>दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० – 9  वार्ड सं० – 9 (शहरी)</p>

	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 11 (भाग) गणना ब्लाक सं० 96–149 तथा 151–156 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 12 वार्ड सं० – 12 (शहरी)
51. कालकाजी	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 8 (भाग) गणना ब्लाक सं० 6–61, 98–121 तथा 140–170 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 10 वार्ड सं० – 10 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 63 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1–8, 65–97, 141–148 तथा 2801 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 65 (भाग) आली
52. तुगलकाबाद	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 63 (भाग) गणना ब्लाक सं० 47–64, 98–140 तथा पुल पहलाद (सीटी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 64 (ख)(भाग) पुल पहलाद (सीटी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 66 वार्ड सं० – 66 (शहरी)
53. बदरपुर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 65 (भाग) गणना ब्लाक सं० 23–83, 115–118 तथा 3301–3304 मोलार बन्द (सीटी), मीठे पुर (सीटी), जैतपुर तथा ताजपुल (सीटी)
54. ओखला	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 7 वार्ड सं० – 7 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 65 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1–22 तथा 84–114 सैदाबाद तथा कोटला माहीगीराम ग्राम
55. त्रिलोकपुरी (अ.जा)	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 67 (भाग) वार्ड सं० – 67 (शहरी) दल्लू पुरा (सीटी) तथा चिल्ला सरोदा बंगार (सीटी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 68 (भाग) दल्लू पुरा (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 1–81
56. कोण्डली (अ.जा)	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 68 (भाग) कोण्डली (सीटी) दल्लू पुरा (सीटी) (भाग) गणना ब्लाक सं० 82–114

	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 70 वार्ड सं० 70 (शहरी), घरोली (सीटी) तथा कोण्डली (सीटी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 72 (भाग) घरोली (सीटी)
57. पटपड़गंज	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 69 (भाग) वार्ड सं० 69 (शहरी), घरौंदा नीमका बांगर उर्फ पटपड़गंज (सीटी) तथा समसपुर (भाग) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 67 (भाग) तथा 69 (भाग) चिल्ला सरोदा खादर ग्राम दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 72 (भाग) गणना ब्लाक सं० 5-172 तथा 201-216
58. लक्ष्मी नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 71 वार्ड सं० – 71 (शहरी), समसपुर (भाग) तथा शकरपुर बरामद ग्राम दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 72 (भाग) गणना ब्लाक सं० 173-200 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 74 वार्ड सं० 74 (शहरी)
59. विश्वास नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 79 (भाग) गणना ब्लाक सं० 33-180 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 80 वार्ड सं० – 80 (शहरी)
60. कृष्णा नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 73 (भाग) वार्ड सं० – 73 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 77 (भाग) गणना ब्लाक सं० 50-59, 74-105, और 124-128 दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 78 वार्ड सं० – 78 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 79 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-32
61. गाँधी नगर	दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 75 वार्ड सं० – 75 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 76 वार्ड सं० – 76 (शहरी) दिल्ली नगर निगम – वार्ड सं० 77 (भाग)

	गणना ब्लाक सं० 1-49, 60-73 और 106-123 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 91 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-33 और 144-147 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 92 (भाग) गणना ब्लाक सं० 30-52
62. शाहदरा	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 81 वार्ड सं० - 81 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 82 (भाग) वार्ड सं० - 82 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 84 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-47 और 110-121
63. सीमापुरी (अ.जा)	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 83 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-162 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 84 (भाग) गणना ब्लाक सं० 48-109 और 122-184 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 85 (भाग) मन्डोली गणना ब्लाक सं० 25-91
64. रोहतास नगर	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 85 (भाग) मन्डोली गणना ब्लाक सं० 1-24 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 87 वार्ड सं० - 87 (शहरी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 88 वार्ड सं० - 88 (शहरी) और गोकुल पुर (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 89 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-39 और 91-113
65. सीलमपुर	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 91 (भाग) गणना ब्लाक सं० 34-143 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 92 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-29 जफराबाद (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 93 (भाग) गणना ब्लाक सं० 85-129 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 96 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-66
66. घोंडा	दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 93 (भाग) गणना ब्लाक सं० 1-84 दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 94

	<p>वार्ड सं० - 94 (शहरी)  गरही मेन्डू गणना ब्लाक सं० 1  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 95 (भाग)  गरही मेन्डू गणना ब्लाक सं० 2-3  गणना ब्लाक सं० 51-115  खानपुर धानी गणना ब्लाक सं० 507-509  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 96 (भाग)  खानपुर धानी गणना ब्लाक सं० 1-10  गोकुलपुरी (सीटी) और जियाउद्दीन पुर (सीटी)</p>
67. बाबरपुर	<p>दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 89 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 40-90 और 114-127  जफराबाद (सीटी)  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 90  वार्ड सं० - 90 (शहरी), गोकुलपुरी (सीटी), बाबरपुर (सीटी)  और जफराबाद (सीटी)  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 96 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 67-101  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 95 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 1-50 तथा 116-123</p>
68. गोकलपुर (अ.जा)	<p>दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 83 (भाग)  गणना ब्लाक सं० 163-200  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 85 (भाग)  मन्डोली गणना ब्लाक सं० 92-155  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 86  वार्ड सं० - 86 (शहरी), करावल नगर (सीटी),  जीवनपुर उर्फ जोहरीपुर (सीटी), जियाउद्दीन पुर (सीटी) और  गोकलपुर (सीटी)</p>
69. मुस्तफाबाद	<p>दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 97 (भाग)  करावल नगर (सीटी)  गणना ब्लाक सं० 1-81, 83-89, और 94-135  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 98  मुस्तफाबाद (सीटी) और जियाउद्दीन पुर (सीटी)  दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० - 97 (भाग), 98 (भाग)  बकियाबाद  गणना ब्लाक सं० 1-17</p>
70. करावल नगर	<p>दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 97 (भाग)</p>

	करावल नगर (सीटी) (भाग) गणना ब्लॉक सं० 82, 90-93, 136-214, सादतपुर गुजरान (सीटी), साबापुर दिल्ली, साबापुर शाहदरा, सादतपुर मुसलमान, खजूरी खास (सीटी) और मीरपुर तुर्क (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 104 (भाग) बदरपुर खादर, पुर देहली तथा पुर शाहदरा दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 95 (भाग) सादतपुर गुजरान (सीटी) दिल्ली नगर निगम - वार्ड सं० 98 (भाग) दयालपुर (सीटी), मीर पुर तुर्क (सीटी), तुखमीर पुर, बिहारी पुर और शेरपुर
--	--

### सारणी - ख

#### संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और उनका प्रस्तावित विस्तार

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की कम संख्या तथा नाम	नये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के अनुरूप विस्तार
1. चोंदनी चौक	4. आदर्श नगर, 14. शालीमार बाग, 15. शकूर बस्ती, 16. त्रिनगर, 17. वजीर पुर, 18. माडल टाउन 19. सदर बाजार, 20. चांदनी चौक, 21. मटिया महल और 22. बल्लीमारन
2. उत्तर-पूर्व दिल्ली	2. बुराड़ी, 3. तिमारपुर, 63. सीमापुरी (अ.जा), 64. रोहतास नगर, 66. सीलमपुर, 66. घोंडा, 67. बाबरपुर, 68. गोकुलपुर (अ.जा), 69. मुस्तफाबाद और 70. करावल नगर
3. पूर्व दिल्ली	41. जंगपुरा, 54. ओखला, 55. त्रिलोकपुरी (अ.जा), 56. कोडली (अ.जा), 57. पटपड़गंज, 58. लक्ष्मीनगर, 59. विश्वास नगर, 60. कृष्णा नगर, 61. गांधी नगर और 62. शाहदरा.
4. नई दिल्ली	23. करोल बाग (अ.जा), 24. पटेल नगर (अ.जा), 25. मोती नगर, 38. दिल्ली कैट, 39. राजेन्द्र नगर, 40. नई दिल्ली, 42. कस्तूरबा नगर, 43. हौज खास, 44. रामकृष्ण पुरम और 50. ग्रेटर कैलाश
5. उत्तर-पश्चिमी दिल्ली (अ.जा)	1. नरेला, 5. बादली, 6. रिठाला, 7. बवाना (अ.जा), 8. मुन्डका, 9. किराडी, 10. सुल्तानपुर माजरा (अ.जा), 11. नांगलोई जाट, 12. मंगोलपुरी (अ.जा) और 13. रोहिणी



6. पश्चिम दिल्ली	26. मादीपुर (अ.जा), 27. राजौरी गार्डन, 28. हरि नगर, 29. तिलक नगर, 30. जनकपुरी, 31. विकासपुरी, 32. उत्तम नगर, 33. द्वारका, 34. मटियाला और 35. नजफगढ़
7. दक्षिण दिल्ली	36. बिजवासन, 37. पालम, 45. महरौली, 46. छतरपुर, 47. देवली (अ.जा), 48. अम्बेडकर नगर (अ.जा), 49. संगम विहार, 51. कालकाजी, 52. तुगलकाबाद और 53. बदरपुर

[फा. सं. 282/दिल्ली/2006]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

## नोटिस

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2006

परिसीमन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली में लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए राज्य के संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपना प्रस्ताव भारत के राजपत्र असाधारण और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के राजपत्र दोनों दिनांक 27 जनवरी, 2006 में प्रकाशित कर दिया है। आयोग ने इस संबंध में आक्षेप और सुझाव मांगे हैं।

2. राजपत्र की प्रतियां, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के सभी उपायुक्तों के पास सन्दर्भ के लिए उपलब्ध है।

3. इन प्रस्तावों पर कोई भी आक्षेप और सुझाव सचिव, परिसीमन आयोग, निर्वाचन मदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 के पास 10 फरवरी, 2006 (शुक्रवार) को या उससे पहले 1700 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। आयोग द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार राज्य में सार्वजनिक बैठकों में विचार किया जाएगा।

सार्वजनिक सुनवाई के लिए समय तथा तारीख	स्थान तथा स्थल	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और संबंधित संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित प्रस्तावों पर सुनवाई क्रमशः तारीखों को होगी
21.2.2006 (मंगलवार) 10.00 बजे पूर्वाह्न	तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 1 से 37
22.2.2006 (बुधवार) 10.00 बजे पूर्वाह्न	तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 38 से 70

[फा. सं. 282/दिल्ली/2006]

आदेश से,

शंगारा राम, सचिव

238 45/06

\*\* प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत वार्ड/गणना ब्लॉक/सीटी/गावों इत्यादि की सीमाओं के सम्बन्ध में आगे कोई अन्य विवरण निम्नलिखित अधिकारियों के कार्यालयों में 28/01/06 से 10/02/06 तक 11.00 बजे पूर्वाह्न से 4.00 बजे अपराह्न तक देखा जा सकता है -

1. श्री एस. पी. मरवाह, राज्य निर्वाचन आयुक्त,  
निगम भवन, ओल्ड हिन्दू कॉलेज, कश्मीरी गेट,  
दिल्ली-110006.
2. उपायुक्त (नई दिल्ली),  
12/1, जाम नगर हाऊस,  
नई दिल्ली।
3. उपायुक्त (दक्षिण),  
खण्ड विकास अधिकारी का कार्यालय, एम.बी.रोड,  
साकेत, नई दिल्ली।
4. उपायुक्त (दक्षिण-पश्चिम)  
पुराना टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग,  
कापसहेड़ा, नई दिल्ली।
5. उपायुक्त (केन्द्रीय),  
पुराना रोजगार कार्यालय, दरियागंज,  
नई दिल्ली।
6. उपायुक्त (उत्तर),  
1, कृपा नारायण मार्ग, दिल्ली।
7. उपायुक्त (पूर्व)  
एल.एम.बब्ब, शास्त्री नगर, दिल्ली।
8. उपायुक्त (उत्तर-पश्चिम),  
कंझावला, दिल्ली।
9. उपायुक्त (उत्तर-पूर्व),  
वीवर्स कॉम्प्लेक्स, नन्द नगरी, दिल्ली।
10. उपायुक्त (पश्चिम),  
पुराना स्कूल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स,  
लारेन्स रोड, रामपुरा, दिल्ली।

#### DELIMITATION COMMISSION OF INDIA

#### ORDER NO. 17

New Delhi, the 27th January, 2006

**O.N. 5(E).**—In pursuance of Section 8 read with Section 4 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and having regard to all other relevant Constitutional and statutory provisions in this regard, the Delimitation Commission hereby determines:—

- a) the total number of seats to be allocated to the NCT of Delhi in the House of the People as Seven (7);

- b) of the total number of Seven (7); seats so allocated to the NCT of Delhi in the House of the People, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as One (1) and Zero (0) respectively;
- c) the total number of seats to be assigned to the Legislative Assembly of the NCT of Delhi, as Seventy (70); and
- d) of the total number of Seventy (70) seats so assigned to the Legislative Assembly of the NCT of Delhi, the number of seats to be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes as Twelve (12) and Zero (0) respectively,

[F. No. 282/DL/2006]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2006

In pursuance of sub-section (2) of Section 9 of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), the Delimitation Commission hereby publishes its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the NCT of Delhi and specifies 10th February, 2006 (Friday) as the date on or after which the proposals will be further considered by it.

2. Any objections or suggestions in regard to these proposals should reach the Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001 on or before the said date.

#### PROPOSALS

(i) The territorial constituencies into which the NCT of Delhi shall be divided for the purpose of elections to (a) the Legislative Assembly of the NCT of Delhi, and (b) the House of the People, the extent of each such constituency and the constituencies in which the seats are reserved for the Scheduled Castes shall be as shown in the **Table-A and Table-B** respectively; and

(ii) Whereas the name of a constituency as shown in Table A or Table B is distinguished by the brackets and letters (**SC**), the seat in that constituency is reserved for the Scheduled Castes.

**TABLE – A**  
**ASSEMBLY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT**

Sl. No. & Name of Assembly Constituency	Extent
1. Narela	<p><b>DMC-Ward No. 101</b> Ward No.101 (Urban) and Bankner(CT), Ghoga(CT), Sanoth(CT), LamPur, MamoorPur, Singhola, Tikri Khurd, Kureni and Bhor Garh villages.</p> <p><b>DMC-Ward No. 102</b> Khera Khurd (CT), Ali Pur (CT), Singhu, Hamid Pur, Taj Pur Kalan, Akbar Pur Majra, Palla, Qullak Pur, Jhangola, SungerPur Shahdara, Sunger Pur Delhi, Tigi Pur , Fateh Pur Jat, Bakhtawar Pur, Bankauli, Kham Pur, Shah Pur Garhi, Rajpur Kalan, Iradat Nagar alias Naya Bans, Holambi Khurd, Holambi Kalan, Zind Pur, Hiranki, Mohd. Pur Ramzan Pur, Tehri Daulat Pur, Bodh Pur Bija Pur and Khera Kalan villages.</p>
2. Burari	<p><b>DMC-Ward No. 104 (Part)</b> Burari (CT), Jharoda Majra Burari (CT), Bhalswa Jahangir Pur (CT), Ibrahim Pur, Garhi Khasru, Mukhmel Pur, Qadi Pur, Nangli Poona, Sanjarpur, Salem Pur Majra Burari, Badar Pur Majra Burari, Jagat Pur ilaqa Shahdara, Jagat Pur ilaqa Delhi, Kamal Pur Majra Burari and Mukand Pur villages.</p>
3. Timarpur	<p><b>DMC-Ward No. 115</b> Ward No.115 (Urban)</p> <p><b>DMC-Ward No. 116</b> Ward No.116 (Urban)</p> <p><b>DMC-Ward No. 121 (Part)</b> E.B. No. 1 –36 and 73-110</p>
4. Adarsh Nagar	<p><b>DMC-Ward No. 105 (Part)</b> E.B. No. 1 -113</p> <p><b>DMC-Ward No. 106</b> Ward No.106 (Urban)</p> <p><b>DMC-Ward No. 118 (Part)</b> E.B. No. 92-118</p>
5. Badli	<p><b>DMC-Ward No. 34 (Part)</b> E.B. No. 66 - 133, 170 - 181, Libas Pur (CT) and Siras Pur (CT).</p> <p><b>DMC-Ward No. 103</b> Bhalswa Jahangir Pur (CT)</p>
6. Rithala	<p><b>DMC-Ward No. 33 (Part)</b> E.B. No. 131-220, 315-358, 412-417, 419, 421, 424, 425, 427-431 and 437-438</p> <p><b>DMC-Ward No. 35 (Part)</b> E.B. No. 1 -92 and 224 - 320</p>

- 7. Bawana (SC)** **DMC-Ward No. 34 (Part)**  
Kankar Khara village.  
**DMC-Ward No. 36**  
Sahibabad Daulat Pur (CT), Pehlad Pur Bangar (CT), Begum Pur (CT),  
Pooth Kalan (CT), Pansali and Barwala villages.  
**DMC-Ward No. 37**  
Bawana (CT), Nangal Thakran (CT), Pooth Khurd (CT), Darya Pur Kalan,  
Hareoli, Oghandi, Mungesh Pur, Katewara, Bazid Pur Thakran, Sultan Pur,  
Dabas, Qutab Garh, Punjab Khor, Jat Khor, Salah Pur Majra, Budhan Pur  
and Chand Pur villages.
- 8. Mundka** **DMC-Ward No. 38 (Part)**  
Kanjhawala (CT), Karala, Mohammad Pur Majri, Madan Pur Dabas, Lad Pur,  
Chatesar, Jonti, Garhi Rindhala and Nizam Pur Rashid Pur villages.  
**DMC-Ward No. 43**  
**Nangloi Jat (CT)(Part)**  
EB No. 1 - 39  
**DMC-Ward No. 44**  
Mundka (CT)  
**Nangloi Jat (CT) (Part)**  
EB No. 1 - 32 and 35  
**Quamruddin Nagar (CT) (Part)**  
EB No. 1 - 3 & 14-15, Gheora (CT), Rani Khara, Rasool Pur, Saoda and  
Nilothi villages.  
**DMC-Ward No. 48 (Part)**  
Jaffar Pur alias Hiran Kudna, Bakkar Wala, Tilang Pur Kotla, Shafi Pur and  
Ranhola villages.  
**DMC-Ward No. 50 (Part)**  
Tikri Kalan and Neel Wal villages.
- 9. Kirari** **DMC-Ward No. 38 (Part)**  
Kirari Suleman Nagar (CT), Nithari and Mubarak Pur Dabas villages.
- 10. Sultan Pur Majra (SC)** **DMC-Ward No. 39 (Part)**  
Sultan Pur Majra (CT)  
**DMC-Ward No. 40**  
Sultan Pur Majra (CT)  
**DMC-Ward No. 41 (Part)**  
E.B. No. 1 - 60
- 11. Nangloi Jat** **DMC-Ward No. 39 (Part)**  
Ward No. 39 (Urban)  
**DMC-Ward No. 43**  
Ward No. 43 (Urban)  
**Nangloi Jat (CT) (Part)**  
E.B. No. 40 - 186  
**DMC-Ward No. 44 (Part)**  
**Nangloi Jat (CT) (Part)**  
E.B. No. 33 - 34

**Quammruddin Nagar (CT) Part**

E.B. No. 4 – 13 and 33 – 34

**12. Mangol Puri (SC)****DMC-Ward No. 35 (Part)**

E.B. No. 93 -223

**DMC-Ward No. 41 (Part)**

E.B. No. 61 - 153

**DMC-Ward No. 42**

Ward No.42 (Urban)

**13. Rohini****DMC-Ward No. 33 (Part)**

E.B. No. 1-130, 221-314, 359-411, 418, 420, 422, 423, 426, 432-436 and 439-446

**DMC-Ward No. 34 (Part)**

E.B. No. 134 – 169

**14. Shalimar Bagh****DMC-Ward No. 31**

Ward No.31 (Urban)

**DMC-Ward No. 32**

Ward No.32 (Urban)

**DMC-Ward No. 34 (Part)**

E.B. No. 1 –65

**15. Shakur Basti****DMC-Ward No. 26**

Ward No.26 (Urban)

**DMC-Ward No. 30**

Ward No.30 (Urban)

**16. Tri Nagar****DMC-Ward No. 27**

Ward No.27 (Urban)

**DMC-Ward No. 28 (Part)**

E.B. No. 1 – 53 and 107-121

**DMC-Ward No. 29**

Ward No.29 (Urban)

**17. Wazirpur****DMC-Ward No. 28 (Part)**

E.B. No. 54-106

**DMC-Ward No. 99**

Ward No. 99 (Urban)

**DMC-Ward No. 100**

Ward No.100 (Urban)

**DMC-Ward No. 105 (Part)**

E.B. No. 114 – 190

**18. Model Town****DMC-Ward No. 117**

Ward No.117 (Urban)

**DMC-Ward No. 118 (Part)**

E.B. No. 1 - 91&amp; Special E.B. No. 701 –704 and 801 - 803

**DMC-Ward No. 119**

Ward No.119 (Urban)

- 9. Sadar Bazar**
- DMC-Ward No. 120**  
Ward No. 120 (Urban)
  - DMC-Ward No. 121 (Part)**  
E.B. No. 37 – 72 and 111 - 115
  - DMC-Ward No. 122**  
Ward No. 122 (Urban)
  - DMC-Ward No. 133**  
Ward No. 133 (Urban)
- 10. Chandni Chowk**
- DMC-Ward No. 2 (Part)**  
E.B. No. 121 – 144 and 146 - 157
  - DMC-Ward No. 110 (Part)**  
E.B. No. 1 - 83 and 501 - 504
  - DMC-Ward No. 113**  
Ward No. 113 (Urban)
  - DMC-Ward No. 114**  
Ward No. 114 (Urban)
- 21. Matia Mahal**
- DMC-Ward No. 1 (Part)**  
E.B. No. 1-50 and 73-82
  - DMC-Ward No. 2 (Part)**  
E.B. No. 77 – 120 and 145
  - DMC-Ward No. 107 (Part)**  
E.B. No. 1 - 62
  - DMC-Ward No. 108 (Part)**  
E.B. No. 85 - 105
  - DMC-Ward No. 109**  
Ward No. 109 (Urban)
  - DMC-Ward No. 110 (Part)**  
E.B. No. 84 – 147
- 22. Ballimaran**
- DMC-Ward No. 107 (Part)**  
E.B. No. 63 - 95
  - DMC-Ward No. 112**  
Ward No. 112 (Urban)
  - DMC-Ward No. 111**  
Ward No. 111 (Urban)
  - DMC-Ward No. 131**  
Ward No. 131 (Urban)
- 23. Karol Bagh (SC)**
- DMC-Ward No. 108 (Part)**  
E.B. No. 1 - 84
  - DMC-Ward No. 129 (Part)**  
E.B. 1-19, 45-79 and 82-88
  - DMC-Ward No. 130**  
Ward No. 130 (Urban)
  - DMC-Ward No. 132**

## Ward No.132 (Urban)

**24. Patel Nagar (SC)****DMC-Ward No. 125 (Part)**

E.B.1 - 83 and 100 - 126

**DMC-Ward No. 126 (Part)**

E.B. No. 1 - 46 and 104 -136

**DMC-Ward No. 134 (Part)**

E.B. No. 1 -127 and 150 - 167

**25. Moti Nagar****DMC-Ward No. 123**

Ward No. 123 (Urban)

**DMC-Ward No. 124**

Ward No.124 (Urban)

**DMC-Ward No. 125 (Part)**

E. B. No. 84 - 99

**DMC-Ward No.23 (Part)**

E.B. No. 86 -110

**DMC-Ward No. 134 (Part)**

E.B. No. 128 - 149 and 168 - 180

**26. Madipur (SC)****DMC-Ward No. 23 (Part)**

E.B. No. 49 - 85

**DMC-Ward No. 24**

Ward No.24 (Urban)

**DMC-Ward No. 25**

Ward No.25 (Urban)

**27. Rajouri Garden****DMC-Ward No. 21**

Ward No. 21 (Urban)

**DMC-Ward No. 22 (Part)**

E.B. No. 81

**DMC-Ward No. 23 (Part)**

E.B. No. 1 - 48

**DMC-Ward No. 45**

Ward No.45 (Urban)

**DMC-Ward No. 46 (Part)**

E.B. No. 1 - 23

**28. Hari Nagar****DMC-Ward No. 18 (Part)**

E.B. No. 1 - 43 and 93 - 142

**DMC-Ward No. 19 (Part)**

E.B. No. 1-110 and 165-167

**DMC-Ward No. 20**

Ward No.20 (Urban)



- 29. Tilak Nagar**      **DMC-Ward No. 22 (Part)**  
E.B. No. 1 - 80, 82 - 148 and Special E.B. No. 2901  
**DMC-Ward No. 46 (Part)**  
E.B. No. 24 - 182
- 30. Janakpuri**      **DMC-Ward No. 17**  
Ward No. 17 (Urban)  
**DMC-Ward No. 18 (Part)**  
E.B. No. 44 - 92  
**DMC-Ward No. 19 (Part)**  
E.B. No. 111-164  
**DMC-Ward No. 51 (Part)**  
E.B. No. 1 - 76
- 31. Vikaspuri**      **DMC-Ward No. 47**  
Ward No. 47 (Urban) and Hastal (CT)  
**DMC-Ward No. 48 (Part)**  
Bapraula and Raja Pur Khurd villages.
- 32. Uttam Nagar**      **DMC-Ward No. 48 (Part)**  
Ward No. 48 (Urban)  
**DMC-Ward No. 54 (Part)**  
E.B. No. 96 - 97
- 33. Dwarka**      **DMC-Ward No. 51 (Part)**  
E.B. No. 77 - 174  
**DMC-Ward No. 52 (Part)**  
E.B. No. 61 - 75 and 91 - 257
- 34. Matiala**      **DMC-Ward No. 49 (Part)**  
Dindar Pur, Kharkhari Nahar, Kharkhari Jatmal, Khera Dabar and Nangli Sakrawati villages.  
**DMC-Ward No. 53 (Part)**  
E.B. No. 11 - 86 and 132-217  
Paprawat, Goela Khurd, Qutab Pur, Taj Pur Khurd, Rewla Kham Pur, Pindwala Kalan, Darya Pur Khurd, Sher Pur Deri, Kharkhari Rond, Daulat Pur, Pindwala Khurd, Goman Hera, Jhuljhuli, Sarang Pur, Ghalib Pur, Raota and Deoraja villages.  
**DMC-Ward No. 54 (Part)**  
E.B. No. 225-229  
**DMC-Ward No. 55 (Part)**  
Chhawala (CT), Hasan Pur, Kangan Heri, Raghu Pur, Badhosra, Nanak Heri, Jhatikra, Asalat Pur Khawad, Shikar Pur and Jain Pur villages.
- 35. Najafgarh**      **DMC-Ward No. 49 (Part)**  
Ward No. 49 (Urban), Roshan Pura alias Dichaon Khurd (CT) and Khera villages.

**DMC-Ward No. 50 (Part)**

Jharoda Kalan, Dichaon Kalan, Mitraon, Surakh Pur, Kair, Mundhela Khurd, Mundhela Kalan, Jaffar Pur Kalan, Surera, Ujwa, Samas Pur Khalsa, Baqar Garh, Isa Pur, Qazi Pur, Malik Pur zer-Najafgarh and Dhansa villages.

**36. Bijwasan****DMC-Ward No. 54 (Part)**

E.B. No. 1-76

**DMC-Ward No. 55 (Part)**

Ward No.55 (Urban), Sambhalka (CT), Kapas Hera (CT) and Salah Pur village.

**DMC-Ward No. 56 (Part)**

E.B. No. 1 - 60, 64 - 67 & Special E.B. No.2101 - 2102, 3601 - 3603 and Nangal Dewat (CT)

**37. Palam****DMC-Ward No. 52 (Part)**

E.B. No. 1 - 60 and 76 - 90

**DMC-Ward No. 53 (Part)**

E.B. No.1 - 10 and 87-131

**DMC-Ward No. 54 (Part)**

E.B. No. 77 - 95, 98 - 224, 230 - 237 & Special E.B. No. 1101 -1102, 1501 - 1510 and 2701.

**38. Delhi Cantt****Delhi Cantt-Ward No 1 to Ward No 7****N.D.M.C. - Charge No. 8 (Part)**

E.B. No. 11 - 12 and 14 - 30

**N.D.M.C. - Charge No. 9 (Part)**

E.B. No. 18 - 140, 301, 302 and 1201 - 1208

**39. Rajinder Nagar****DMC-Ward No. 126 (Part)**

EB No.47 - 103

**DMC-Ward No. 127**

Ward No.127 (Urban)

**DMC-Ward No. 128**

Ward No.128 (Urban)

**DMC-Ward No. 129 (Part)**

E.B. No. 20-44 and 80-81

**40. New Delhi****N.D.M.C. - Charge No. 1 to Charge No. 7****N.D.M.C. - Charge No. 8 (Part)**

EB No. 1 - 10, 13 and 31 - 42

**N.D.M.C. - Charge No. 9 (Part)**

E.B. No. 1 - 17

**41. Jangpura****DMC-Ward No. 1 (Part)**

E.B. No. 51 - 72 and 83 - 101

- DMC-Ward No. 2 (Part)**  
E.B. No. 1-76, 158-159 and 3401-3403  
**DMC-Ward No. 6**  
Ward No. 6 (Urban)  
**DMC-Ward No. 5 (Part)**  
E.B. No. 1 - 48 and 61 - 90
- 42. Kasturba Nagar**      **DMC-Ward No. 3**  
Ward No.3 (Urban)  
**DMC-Ward No. 4**  
Ward No.4 (Urban)  
**DMC-Ward No. 5 (Part)**  
E.B. No. 49 - 60 and 91 - 113  
**DMC-Ward No. 8 (Part)**  
E.B. No. 1 - 5, 62 - 97 and 122 - 139
- 43. Hauz Khas**      **DMC-Ward No. 11 (Part)**  
E.B. No. 1 - 95 and 150  
**DMC-Ward No. 13 (Part)**  
E.B. No. 17 - 106  
**DMC-Ward No. 14**  
Ward No.14 (Urban)
- 44. R.K. Puram**      **DMC-Ward No. 13 (Part)**  
E.B. No. 1 - 16 and 107 - 117  
**DMC-Ward No. 15**  
Ward No.15 (Urban)  
**DMC-Ward No. 16**  
Ward No.16 (Urban) and Moradabad Pahari village.
- 45. Mehrauli**      **DMC-Ward No. 55 (Part)**  
Rajokri (CT)  
**DMC-Ward No. 56 (Part)**  
E.B. No. 61 - 63 and 68 - 129  
Malik Pur Kohi alias Rang Puri and Kusum Pur villages.  
**DMC-Ward No. 57**  
Ward No.57 (Urban)  
**DMC-Ward No. 59 (Part)**  
E.B. No. 1 - 4 and 71 - 93
- 46. Chhattarpur**      **DMC-Ward No. 58**  
Sultan Pur (CT), Asola (CT), Bhati (CT), Jona Pur (CT), Gadai Pur, Aya Nagar, Mandi, Raj Pur Khurd, Satberi, Shahur Pur, Chandan Hola, Fateh Pur Beri, Dera, Chhattar Pur and Maidan Garhi villages.  
**DMC-Ward No. 57 (Part)**  
Saidul Azaib (CT) and Neb Sarai village.  
**DMC-Ward No. 56 (Part)**  
Ghitorni (CT)

- Ward No. 60 (Part)**  
**Deoli (CT) (Part)**  
E.B. No. 136 – 171
- 47. Deoli (SC)**      **Ward No. 60 (Part)**  
                         **Deoli (CT) (Part)**  
                         E.B. No. 1 – 135 and Tigri (CT)  
                         **DMC-Ward No. 62 (Part)**  
                         E.B. No. 1 - 68  
                         **DMC-Ward No. 64 (A)**  
                         Ward No. 64 (A) (Urban)
- 48. Ambedkar Nagar (SC)** **DMC-Ward No. 59 (Part)**  
                                 E.B. No. 5 – 70 and 94 - 140  
                                 **DMC-Ward No. 61**  
                                 Ward No. 61 (Urban)  
                                 **DMC-Ward No. 62 (Part)**  
                                 E.B. No. 69 – 133
- 49. Sangam Vihar**      **DMC-Ward No. 64 (B) (Part)**  
                                 Ward No. 64 (B) (Urban)  
                                 **DMC-Ward No. 63 (Part)**  
                                 E.B. No. 9 – 46
- 50. Greater Kailash**      **DMC-Ward No. 9**  
                                 Ward No. 9 (Urban)  
                                 **DMC-Ward No. 11 (Part)**  
                                 E.B. No. 96 - 149 and 151 - 156  
                                 **DMC-Ward No. 12**  
                                 Ward No. 12 (Urban)
- 51. Kalkaji**              **DMC-Ward No. 8 (Part)**  
                                 EB No. 6 - 61, 98 – 121 and 140 - 170  
                                 **DMC-Ward No. 10**  
                                 Ward No. 10 (Urban)  
                                 **DMC-Ward No. 63 (Part)**  
                                 EB No. 1 - 8, 65 - 97, 141 – 148 and 2801  
                                 **DMC-Ward No. 65 (Part)**  
                                 Aali village
- 52. Tughlakabad**      **DMC-Ward No. 63 (Part)**  
                                 47 - 64, 98 - 140 and Pul Pehlad (CT)  
                                 **DMC-Ward No. 64 (B) (Part)**  
                                 Pul Pehlad (CT)  
                                 **DMC-Ward No. 66**  
                                 Ward No. 66 (Urban)

- 53. Badarpur** **DMC-Ward No. 65 (Part)**  
EB No. 23 - 83, 115 - 118 and 3301 - 3304  
Molar Band (CT), Mithe Pur (CT), Jait Pur and Tajpul (CT)
- 54. Okhla** **DMC-Ward No. 7**  
Ward No.7 (Urban)  
**DMC-Ward No. 65 (Part)**  
E.B. No. 1 - 22 and 84 - 114  
Saidabad and Kotla Mahigiram villages.
- 55. Trilokpuri (SC)** **DMC-Ward No. 67 (Part)**  
Ward No.67 (Urban), Dallo Pura (CT) and Chilla Saroda Bangar (CT).  
**DMC-Ward No. 68 (Part)**  
**Dallo Pura (CT) (Part)**  
E.B. No. 1 - 81
- 56. Kondli (SC)** **DMC-Ward No. 68 (Part)**  
Kondli (CT)  
**Dallo Pura (CT) (Part)**  
E.B. No. 82 - 114  
**DMC-Ward No. 70**  
Ward No.70 (Urban), Gharoli (CT) and Kondli (CT).  
**DMC-Ward No. 72 (Part)**  
Gharoli (CT)
- 57. Patparganj** **DMC-Ward No. 69 (Part)**  
Ward No.69 (Urban), Gharonda Neemka Bangar alias Patpar Ganj (CT) and Samas Pur (Part).  
**DMC-Ward No. 67 (Part) & 69 (Part)**  
Chilla Saroda Khadar village.  
**DMC-Ward No. 72 (Part)**  
E.B. No. 5 - 172 and 201 - 216
- 58. Laxmi Nagar** **DMC-Ward No. 71**  
Ward No.71 (Urban), Samas Pur (Part) and Shakar Pur Baramad villages.  
**DMC-Ward No. 72 (Part)**  
E.B. No. 173 - 200  
**DMC-Ward No. 74**  
Ward No.74 (Urban)
- 59. Vishwas Nagar** **DMC-Ward No. 79 (Part)**  
E.B. No. 33 - 180  
**DMC-Ward No. 80**  
Ward No.80 (Urban)
- 60. Krishna Nagar** **DMC-Ward No. 73**  
Ward No.73 (Urban)  
**DMC-Ward No. 77 (Part)**  
E.B. No. 50-59, 74-105 and 124-128

- DMC-Ward No. 78**  
Ward No.78 (Urban)  
**DMC-Ward No. 79 (Part)**  
E.B. No. 1 – 32
- 61. Gandhi Nagar**      **DMC-Ward No. 75**  
Ward No.75 (Urban)  
**DMC-Ward No. 76**  
Ward No.76 (Urban)  
**DMC-Ward No. 77 (Part)**  
E.B. No. 1 - 49, 60-73 and 106-123  
**DMC-Ward No. 91 (Part)**  
E.B.No. 1-33 and 144-147  
**DMC-Ward No. 92 (Part)**  
E.B. No. 30 – 52
- 62. Shahdara**      **DMC-Ward No. 81**  
Ward No.81 (Urban)  
**DMC-Ward No. 82**  
Ward No.82 (Urban)  
**DMC-Ward No. 84 (Part)**  
E.B. No. 1 – 47 and 110 – 121
- 63. Seemapuri (SC)**      **DMC- Ward No.83 (Part)**  
E.B.No. 1 -162  
**DMC- Ward No.84 (Part)**  
E.B.No. 48 – 109 and 122 - 184  
**DMC- Ward No.85 (Part)**  
Mandoli E.B.No. 25 – 91
- 64. Rohtas Nagar**      **DMC- Ward No.85 (Part)**  
Mandoli E.B.No. 1 - 24  
**DMC- Ward No.87**  
Ward No. 87 (Urban)  
**DMC- Ward No.88**  
Ward No. 88 (Urban) and Gokal Pur (CT)  
**DMC- Ward No.89 (Part)**  
E.B. No. 1 – 39 and 91 –113
- 65. Seelam Pur**      **DMC- Ward No.91 (Part)**  
E.B.No. 34 - 143  
**DMC- Ward No.92 (Part)**  
E.B.No. 1 - 29  
Jaffarabad (CT)  
**DMC- Ward No.93 (Part)**  
E.B. No. 85 - 129

- DMC- Ward No.96 (Part)**  
E.B. No. 1 -66
- 66. Ghonda**
- DMC- Ward No.93 (Part)**  
E.B. No. 1 -84
- DMC- Ward No.94**  
Ward No. 94 (Urban)  
Garhi Mendu E.B. No. 1
- DMC Ward No. 95 (Part)**  
Garhi Mendu E.B. No. 2-3  
EB.No. 51-115  
Khanpur Dhani E.B. No. 507-509
- DMC Ward No. 96 (Part)**  
Khanpur Dhani E.B. No. 1-10  
Gokulpur (CT) and Ziauddin Pur (CT)
- 67. Babarpur**
- DMC- Ward No.89 (Part)**  
E.B.No. 40 – 90 and 114 - 127  
Jaffarabad (CT)
- DMC- Ward No.90**  
Ward No. 90 (Urban), Gokulpur (CT), Babarpur (CT) and Jaffarabad (CT)
- DMC- Ward No.96 (Part)**  
E.B. No. 67 - 101
- DMC- Ward No.95 (Part)**  
E.B. No. 1 – 50 and 116-123
- 68. Gokalpur (SC)**
- DMC-Ward No. 83 (Part)**  
E.B. No. 163 - 200
- DMC- Ward No.85 (Part)**  
Mandoli E.B. No. 92 - 155
- DMC-Ward No. 86**  
Ward No.86 (Urban), Karawal Nagar (CT), Jiwan Pur alias Johri Pur (CT),  
Ziauddin Pur (CT) and Gokal Pur (CT).
- 69. Mustafabad**
- DMC-Ward No. 97 (Part)**  
Karwal Nagar (CT), EB.No.1-81,83-89 and 94-135
- DMC-Ward No. 98**  
Mustafabad (CT) and Ziauddin Pur (CT).
- DMC Ward No. 97(Part), 98(Part)**  
Baqiabad  
EB.No.1-17

**70. Karawal Nagar****DMC-Ward No. 97 (Part)****Karawal Nagar (CT) (Part)**

E.B. No.82, 90-93, 136-214, Sadat Pur Gujran (CT), Saba Pur Delhi, Saba Pur Shahdara, Sadat Pur Musalman, Khajoori khas (CT) and Mir Pur Turk (CT).

**DMC-Ward No. 104 (Part)**

Badar Pur Khadar, Pur Delhi and Pur Shahdara.

**DMC-Ward No. 95 (Part)**

Sadat Pur Gujran (CT)

**DMC-Ward No. 98 (Part)**

Dayal Pur (CT), Mir Pur Turk (CT), Tukhmir Pur, Bihari Pur and Sher Pur.

**TABLE – B**  
**PARLIAMANTARY CONSTITUENCIES AND THEIR PROPOSED EXTENT**

Sl. No. & Name of Parliamentary Constituency	Extent in terms of new Assembly Constituencies
<b>1-Chandni Chowk</b>	4.Adarsh Nagar, 14.Shalimar Bagh, 15.Shakur Basti, 16.Tri Nagar, 17.Wazirpur, 18.Model Town, 19.Sadar Bazar, 20.Chandni Chowk, 21.Matia Mahal and 22.Ballimaran
<b>2-North East Delhi</b>	2.Burari, 3.Timarpur, 63.Seemapuri (SC), 64.Rohtas Nagar, 65.Seelam Pur, 66.Ghonda, 67.Babarpur, 68.Gokalpur (SC), 69.Mustafabad and 70.Karawal Nagar.
<b>3-East Delhi</b>	41.Jangpura, 54.Okhla, 55.Trilokpuri (SC), 56.Kondli (SC), 57.Patparganj, 58.Laxmi Nagar, 59.Vishwas Nagar, 60.Krishna Nagar, 61.Gandhi Nagar and 62.Shahdara
<b>4-New Delhi</b>	23.Karol Bagh (SC), 24.Patel Nagar (SC), 25.Moti Nagar, 38.Delhi Cantt, 39.Rajinder Nagar, 40.New Delhi, 42.Kasturba Nagar, 43.Hauz Khas, 44.R.K. Puram and 50.Greater Kailash.
<b>5-North West Delhi (SC)</b>	1.Nerela, 5.Badli, 6.Rithala, 7.Bawana (SC), 8.Mundka, 9.Kirari, 10.Sultan Pur Majra (SC), 11.Nangloi Jat, 12.Mangol Puri (SC) and 13.Rohini
<b>6-West Delhi</b>	26.Madipur (SC), 27.Rajouri Garden, 28.Hari Nagar, 29.Tilak Nagar, 30.Janakpuri, 31.Vikaspuri, 32.Uttam Nagar, 33.Dwarka, 34.Matiala and 35.Najafgarh
<b>7-South Delhi</b>	36.Bijwasan, 37.Palam, 45.Mehrauli, 46.Chhatarpur, 47.Deoli (SC), 48.Ambedkar Nagar (SC), 49.Sangam Vihar, 51.Kalkaji, 52.Tughlakabad and 53.Badarpur.

[F. No. 282/DL/2006]

By Order.

SHANGARA RAM, Secy.



## NOTICE

New Delhi, the 27th January, 2006

The Delimitation Commission has published in the Gazette of India, Extraordinary and in the NCT of Delhi Gazette both dated 27<sup>th</sup> January, 2006 its proposals for the delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the NCT of Delhi for the purpose of the elections to the House of the People and the Legislative Assembly of the NCT of Delhi. The Commission invites objections and suggestions in relation to the same.

2. Copies of the gazette are available for reference, with the Chief Electoral Officer, NCT of Delhi and the Deputy Commissioners in the NCT of Delhi.

3. Any objections and suggestions to the proposals should reach the **Secretary, Delimitation Commission, Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001** on or before 1700 hours on 10<sup>th</sup> February, 2006 (Friday). These will be considered by the Commission in public sittings in the NCT of Delhi as per schedule given below.

Date and time of public hearing	Place and Venue	Assembly Constituencies and respective Parliamentary Constituencies regarding which the proposals will be heard on the respective dates
21/02/2006 (Tuesday) at 10.00 A.M.	Talkatora Stadium, New Delhi	Assembly Constituencies No. 1 to 37
22/02/2006 (Wednesday) at 10.00 A.M.	Talkatora Stadium, New Delhi	Assembly Constituencies No. 38 to 70

[F. No. 282/DL/2006]

By Order,

SHANGARA RAM, Secy.

**\*\*Any further details regarding boundaries such as Ward /E.B./CT/Villages etc. comprising the proposed constituencies can be seen between 11.00 A.M. to 4.00 P.M. from 28-01-06 to 10-02-06 in the Offices of –**

- (i) Sh. S. P. Marwah, State Election Commissioner, Nigam Bhawan, Old Hindu College, Kashmere Gate, Delhi 110006 and
- (ii) Deputy Commissioner (New Delhi), 12/1, Jam Nagar House, New Delhi.
- (iii) Deputy Commissioner (South), B.D.O. Office, M.B. Road, Saket, New Delhi.
- (iv) Deputy Commissioner (South-West), Old Terminal Tax Building, Kapashera, New Delhi.
- (v) Deputy Commissioner (Central), Old Employment Exchange, Daryaganj, New Delhi.
- (vi) Deputy Commissioner (North), 1, Kripa Narayan Marg, Delhi.
- (vii) Deputy Commissioner (East), L.M. Bandh, Shastri Nagar, Delhi.
- (viii) Deputy Commissioner (North-West), Kanjhawala, Delhi.
- (ix) Deputy Commissioner (North-East), Weavers Complex, Nandnagri, Delhi.
- (x) Deputy Commissioner (West), Old School Building Complex, Lawrence Road, Rampura, Delhi.